

राजभाषा विभाग की मार्च, 2021 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (1) मैंने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), दिल्ली (उपक्रम-2) - हडको के तत्वावधान में 15 मार्च, 2021 को, भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा 16 मार्च, 2021 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन में तथा दिल्ली (उपक्रम-2) - हडको के तत्वावधान में 17 मार्च, 2021 को आयोजित तकनीकी कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु हडको तथा भारतीय जन संचार संस्थान के शीर्ष अधिकारियों व अन्य कार्मिकों को राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में 12 'प्र' (प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्राइज़, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रमोशन, प्रतिबद्धता और प्रयास) की नीति स्पष्ट की।
- (2) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पाँच दिवसीय ऑनलाइन अभिमुखी कार्यक्रम (Online Orientation Program) का संचालन किया गया जिसमें 32 कार्मिकों ने सहभागिता की।
- (3) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा 1,873 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया गया।
- (4) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो व इसके केन्द्रों द्वारा 03 अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 99 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।
- (5) विभाग द्वारा 05 (कन्नौज, बाराबंकी, पूर्णिया, सीतामढ़ी तथा कानपुर देहात में) नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का गठन किया गया। इस प्रकार अब इन समितियों की संख्या 524 हो गई है।
- (6) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कुल 75 ई-निरीक्षण, 23 ई-बैठकें तथा 52 अन्य बैठकें/वेबिनार किए गए।
- (7) विभाग द्वारा 73 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (8) संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इसे मुद्रित करवाया गया और राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाया गया।
- (9) वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की सहायक निदेशक की रिक्तियों में 57 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/तदर्थ सहायक निदेशकों को नियमित सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
